



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 7—जनवरी 13, 2012 (पौष 17, 1933)
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 7—JANUARY 13, 2012 (PAUSA 17, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 दिसम्बर 2011

सं. ए-19012/02/2005-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, श्री राजीव कुमार, भा.प्र.से. (उत्तर प्रदेश : 81), वर्तमान में संयुक्त सचिव को, उनके द्वारा धारित संयुक्त सचिव के पद का उन्नयन कर, स्व-स्थाने आधार पर, 25 सितम्बर 2011 से, मंत्रिमंडल सचिवालय में अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. जे. सिबिचन, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 1 दिसम्बर 2011

सं. ए-22012/01/2011-प्रशा.-IV--संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त अनुभाग अधिकारी/आञ्चलिक (समूह-ख/ग्रेड-I) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2006, 2007 तथा 2008 में अर्हता प्राप्त करने तथा तदुपरांत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27 अक्टूबर, 2011 के आदेश संख्या 6/3/2011-सीएस.-I (एस) द्वारा योजना आयोग में नामित

किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति जी श्री दिनेश कोछर को योजना आयोग में दिनांक 01 दिसम्बर 2011 (पूर्वाह्न) से चयन सूची 2007 में, 9,300--34,800/- रु. के पे-बैंड-2 + 4,800/- रु. के ग्रेड-पे में अनुभाग अधिकारी (केन्द्रीय सचिवालय सेवा) के रूप में नियुक्त करती हैं।

पी. सी. भारद्वाज, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 2011

सं. एफ-6(1972)/2006-प्रशा.-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15 जुलाई, 2011 के का.ज्ञा. सं. 7/4/2006-ई.ओ (एमएम-I) के अनुसरण में तथा योजना आयोग की दिनांक 23 जून, 2006 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में, आर्थिक सलाहकार परिषद में निदेशक श्रीमती पद्मा अय्यर कौल, आईपी एंड टीए एंड एफएस (89) के केन्द्रीय प्रतिनिधित्वित कार्यकाल को 15.06.2011 से बढ़ाकर 29.07.2011 तक किया जाता है।

2. आर्थिक सलाहकार परिषद की निदेशक श्रीमती पद्मा अय्यर कौल को उनका कार्यकाल पूरा होने पर 01.08.2011 से 09.08.2011 (जिसके

साथ 30.07.2011 और 31.07.2011 की तारीखें भी अवकाश बंदी के कारण शामिल हैं) की 9 दिनों की अवधि का अर्जित अवकाश प्रदान किया जाता है। अवकाश अवधि की समाप्ति के उपरांत, श्रीमती कौल की सेवाएं उनके मूल संवर्ग अर्थात् दूरसंचार विभाग को सौंपी जाती हैं।

3. इसे योजना आयोग की दिनांक 29 जुलाई, 2011 की समसंख्यक अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए जारी किया जाता है।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 28 नवम्बर 2011

सं. एफ-6(2172)/2011-प्रशा.-I--आर्थिक कार्य विभाग की फाइल सं. 13016/1/2011-आईईएस से जारी किए गए दिनांक 22 नवम्बर, 2011 के आदेश सं. पी-15/2011 के अनुसरण में, आईईएस के एसएजी अधिकारी सुश्री विनीता कुमार ने दिनांक 28 नवम्बर, 2011 पूर्वाह्न से एचएजी वेतनमान 67,000--79,000/- रु. (3% वार्षिक वेतनवृद्धि) में योजना आयोग में वरिष्ठ सलाहकार का कार्यभार संभाल लिया है।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 29 नवम्बर 2011

सं. एफ-6(1656)/96-प्रशा.-I (वालयूम-III)--आर्थिक कार्य विभाग की फाइल सं. 13016/1/2011-आईईएस से जारी किए गए दिनांक 22 नवम्बर, 2011 के आदेश सं. पी-15/2011 के अनुसरण में, डॉ. सी. चन्द्रमोहन, आईईएस (1979) ने दिनांक 23 नवम्बर, 2011 पूर्वाह्न से एचएजी वेतनमान 67,000--79,000/- रु. (3% वार्षिक वेतनवृद्धि) में योजना आयोग में वरिष्ठ सलाहकार का कार्यभार संभाल लिया है।

जी. राजीव, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 दिसम्बर 2011

सं. ए-20011/39/74-प्रशा.-III--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर योजना आयोग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग के श्री बी. डी. कुमार, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव दिनांक 31.12.2011 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं।

गुलवीना बधान, अवर सचिव

दिनांक 20 दिसम्बर 2011

सं. ए-20012/189/79-प्रशा.-III--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर योजना आयोग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग के श्री नरिन्दर कुमार, निजी सचिव (तदर्थ) दिनांक 31.12.2011 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं।

गुलवीना बधान, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 दिसम्बर 2011

सं. ए-32013/2/2009-प्रशा.-I(वि.वि.)--विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति, श्री के. आर. साजी कुमार, उप विधायी परामर्शी, (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-III) को विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में अपर विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-II) के पद पर रुपए 37,400--67,000/- के वेतन बैंड + रुपए 8,700/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 14 दिसम्बर, 2011 से तथा अगले आदेशों तक, स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री के. आर. साजी कुमार इस विभाग में अपर विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-II) के पद पर अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक परीवीक्षा पर होंगे।

3. श्री के. आर. साजी कुमार, की अपर विधायी परामर्शी के पद पर नियुक्ति श्री एन. आर. बट्टू उप विधायी परामर्शी द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. सं. 3594/2011 में दिए जाने वाले निर्णय की शर्त पर है।

एम. आर. बीर, निदेशक (प्रशा.)

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 13 दिसम्बर 2011

सं. ए-12034/1/2011-प्रशा.-IV(वि.का.)--राष्ट्रपति, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के श्री एस. बालासुब्रह्मण्यन, वैयक्तिक सहायक को दिनांक 01.12.2011 (पूर्वाह्न) से वेतन बैंड-2 (रु. 9,300--34,800/-) में ग्रेड वेतन रु. 4,800/- सहित माननीय विधि I और न्याय मंत्री (श्री सलमान खुशीद) के वैयक्तिक अनुभाग में प्रथम वैयक्तिक सहायक के पद पर नियुक्त करते हैं। तथापि, श्री एस. बालासुब्रह्मण्यन, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3 सितम्बर, 2008 के का.ज्ञा. सं. 2/22 (बी)/2008-एस्टे (पे-II) में दिए गए अनुदेशों के अनुसार, संवर्ग वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

2. श्री एस. बालासुब्रह्मण्यन की नियुक्ति माननीय विधि और न्याय मंत्री श्री सलमान खुशीद के प्रसाद पर्यंत और उनके कार्यकाल की सहवर्ती है।

आशा सोय, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर 2011

सं. ए-32014/5/2010-प्रशा.-I(क)--राष्ट्रपति, इस मंत्रालय के निम्नलिखित प्रधान निजी सचिवों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/1/2011-सी.एस-II(ए), दिनांक 16.11.2011 के तहत उनके नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (CSSS) के चयन

सूची के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड में शामिल किए जाने के अनुसरण में दिनांक 16.11.2011 के पूर्वाह्न से नियमित आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नियमित प्रधान निजी सचिव के नाम	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्देशित कार्यालय ज्ञापन में वरीयता सं.	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव में चयन सूची का वर्ष
1.	श्री सुरेश चन्द्र, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (तदर्थ)	1	2010 (खण्ड)
2.	श्री कैलाश चंद, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (तदर्थ)	4	2010 (खण्ड)
3.	श्री डी. डी. साधवानी, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (तदर्थ)	13	2010 (खण्ड)
4.	श्री विनोद प्रकाश, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (तदर्थ)	21	2010 (खण्ड)
5.	श्रीमती शशि ए. कुमार, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (तदर्थ)	22	2010 (खण्ड)
6.	श्री महेन्द्र राव, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (तदर्थ)	23	2010 (खण्ड)
7.	श्री नरेश कुमार, प्रधान निजी सचिव	24	2010 (खण्ड)

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 दिसम्बर 2011

सं. I-14012/14/2011-आई.पी.एस-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा के ए.जी.एम.यू.टी. संवर्ग के परीक्षाधीन अधिकारी, सुश्री मनुस्मृति, जिन्हें सिविल सेवा परीक्षा, 2008 में अर्हता प्राप्त करने के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया था, के सिविल सेवा परीक्षा, 2010 में अर्हता प्राप्त करने के आधार पर, उनके भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति के लिए चयन होने पर दिनांक 09.12.2011 (अप्रा.) से भारतीय पुलिस सेवा से उनके तकनीकी त्याग-पत्र स्वीकार करती है।

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस-IV)

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 2011

सं. I-14011/23/2011-आई.पी.एस-1(I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 22.12.2011 को चयन समिति की दिनांक 03.10.2011 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2008-ए, और 2009 की उन चयन सूचियों को अनुमोदित कर दिया है जिनमें भारतीय पुलिस सेवा के केरल संवर्ग में वर्ष 2011 में

5 एवं 5 कुल 10 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु केरल पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :--

चयन सूची-2008 ए

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
सर्वश्री		
1.	के. बी. बालचन्द्रन	30.11.1954
2.	एस. सुरेन्द्रन	20.05.1961
3.	ए. वी. जार्ज	24.03.1962
4.	एस. शशि कुमार	30.05.1956
5.	टी. के. राजमोहन	15.05.1954

चयन सूची-2009

सर्वश्री		
1.*	डी. मधु	28.05.1956
2.	पी. एच. अशरफ	17.11.1955
3.	वी. सी. मोहनन	30.11.1956
4.**	शेख अनवरुद्दीन साहिब	27.11.1955
5.	ए. जे. थॉमसकुट्टी	10.11.1955

*क्रम सं. 1 पर दिए गए नाम को उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक मामले के निपटन तथा राज्य सरकार द्वारा उन्हें सत्यनिष्ठ प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के अध्यक्षीन सूची में अन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

**क्रम सं. 4 पर दिए गए नाम को राज्य सरकार द्वारा उन्हें सत्यनिष्ठ प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के अध्यक्षीन सूची में अन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

के. नटराजन, अवर सचिव

सं. I-14011/23/2011-आई.पी.एस-1(II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा

(संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत केरल संवर्ग प्रदान करते हैं :--

चयन सूची-2008 ए

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	के. बी. बालचन्द्रन	30.11.1954
2.	एस. सुरेन्द्रन	20.05.1961
3.	ए. वी. जार्ज	24.03.1962
4.	एस. शशि कुमार	30.05.1956
5.	टी. के. राजमोहन	15.05.1954

चयन सूची-2009

	सर्वश्री	
1.	पी. एच. अशरफ	17.11.1955
2.	वी. सी. मोहनन	30.11.1956
3.	ए. जे. थॉमसकुट्टी	10.11.1955

2. यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

के. नटराजन, अवर सचिव

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर 2011

सं. 12/65/2011-प्रशा.--राष्ट्रपति जी, श्री शोभित गुप्ता को दिनांक 01.12.2011 (पूर्वाह्न) से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

एल. बी. तोल्टे, अवर सचिव

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 दिसम्बर 2011

सं. ए-19011/02/2011-प्र.सु. (प्रशा.-I)--राष्ट्रपति, श्री शशि शेखर, भारतीय प्रशासनिक सेवा (तमिलनाडू : 81) को दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

बी. के. सिंह, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 नवम्बर 2011

विषय : दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 की अधिसूचना का शुद्धिपत्र।

सं. 33/पीबी-III/2011--अधिसूचना सं. 30/पीबी-I/2011--दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 की समसंख्यक अधिसूचना में क्र. सं. 05 पर प्रधान स्टाफ अधिकारी (पीएसओ) श्री ए. पार्थासारथी की जन्मतिथि को शुद्ध करके 25.03.1952 पढ़ा जाए।

एस. के. राय, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-I व III)

सं. 32/पीबी-III/2011--राष्ट्रपति, इस मंत्रालय के दिनांक 25 अक्टूबर, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. क्यू/सीएडी/584/11/2010 के अनुसार भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के प्रधान निजी सचिव ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त करती हैं :--

क्रम सं.	नाम	जन्मतिथि	पदोन्नति की तारीख
	(श्री/श्रीमती)		
1.	बीरबल आनंद	02.05.1960	24.05.2010
2.	अशोक कुमार भारद्वाज	06.08.1953	01.06.2010
3.	प्रेम नाथ डोगरा	26.01.1951	31.01.2011 को सेवानिवृत्त
4.	टी. मोहन चन्द्रन	25.05.1953	03.10.2011
5.	मनोहर कुमार	21.08.1952	03.10.2011
6.	मुकेश रणदेव	05.10.1954	03.10.2011
7.	दिलीप राज	16.02.1952	03.10.2011
8.	अमर जीत	05.04.1961	03.10.2011
9.	जीतू मुण्डा	20.06.1951	30.06.2011 को सेवानिवृत्त
10.	अनील कुमार गुप्ता	03.10.1958	03.10.2011
11.	चंदर प्रकाश	14.02.1955	21.10.2011

2. उपरोक्त अधिकारियों ने क्रम सं. 3 में उल्लिखित अधिकारी जो सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को छोड़कर उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से वरिष्ठ निजी सचिव का कार्यभार संभाल लिया है।

एस. के. राय, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-I व III)

दिनांक 2 दिसम्बर 2011

सं. 35/पीबी-1/2011--भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड II एवं III के अधिकारी श्री सुनील कुमार ओहरी (जन्मतिथि : 09.10.1951), अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 अक्टूबर, 2011 के अपराह्न में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एस. के. राय, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-1 एवं III)

सं. 36/पीबी-1/2011--भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड II एवं III के अधिकारी श्री दीदार सिंह (जन्मतिथि : 04.10.1951), अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 अक्टूबर, 2011 के अपराह्न में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एस. के. राय, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-1 एवं III)

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर 2011

सं. 96 ए: (फा. सं. ए-19011/17/2010-प्रशा.1)--राष्ट्रपति, श्री एम. सी. जोशी, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 74009) को दिनांक 15.09.2011 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक अथवा उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, भारत सरकार के विशेष सचिव के स्तर के साथ 80,000/- रु. (नियत) के वेतनमान में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 16 नवम्बर 2011

सं. 112: (फा. सं. ए-19011/21/2011-प्रशा.1)--राष्ट्रपति, श्री ए. के. बसु, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 74005) (सेवानिवृत्त) को एच ए जी+75,500--80,000/- रुपये के वेतनमान में तथा आयकर लोकपाल निर्देशिका, 2010 में दी गई शर्तों के अधीन दिनांक 11.11.2011 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 63 वर्ष की आयु के हो जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, बेंगलूरु में आयकर लोकपाल के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 24 नवम्बर 2011

सं. 120: (फा. सं. ए-19011/24/2011-प्रशा.1)--भारत के राष्ट्रपति, श्री कल्याण चौधरी, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 75005) (सेवानिवृत्त) को एच ए जी+75,500--80,000/- रुपये के वेतनमान में तथा आयकर लोकपाल निर्देशिका, 2010 में दी गई शर्तों के अधीन दिनांक 21.11.2011 (अपराह्न) से दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 63 वर्ष की आयु

पूरी हो जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अहमदाबाद में आयकर लोकपाल के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 30 नवम्बर 2011

सं. 121: (फा. सं. ए-19011/25/2011-प्रशा.1)--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (महाराष्ट्र : 79) के अधिकारी श्री अमिताभ राजन को दिनांक 29.11.2011 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में भारत सरकार के अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 2 दिसम्बर 2011

सं. 122: (फा. सं. ए-38011/11/2011-प्रशा.1)--श्री राजेश ढीगरा, भारतीय राजस्व सेवा (सी एंड सी ई : 75) के अधिकारी जो कि राजस्व विभाग के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में सदस्य के रूप में तैनात थे, दिनांक 30.11.2011 (अपराह्न) को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 07 दिसम्बर 2011

सं. 124: (फा. सं. ए-19011/27/2011-प्रशा.1)--राष्ट्रपति, डॉ. जोसफ अब्राहम, (आई ई एस : 1979) को दिनांक 01.12.2011 (पूर्वाह्न) से तथा अगले आदेशों तक रुपये 67,000/- (3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) 79,000/- रुपये के उच्च प्रशासनिक ग्रेड वेतनमान में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 दिसम्बर 2011

सं. ए-12011/18/2005-प्रशा. II--राष्ट्रपति, व्यय विभाग (सीएस) के दिनांक 15.12.2011 के का.ज्ञा. सं. ए. 32014/1/2006-सीएस के अनुसरण में, श्री अनिल यादव, अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) को रु. 9,300--34,800/- रु. 4,800/- (ग्रेड वेतन) पी.बी.-2 में संयुक्त समिति विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2006, 2007 और 2008 के परिणाम के आधार पर दिनांक 05 दिसम्बर, 2011 से वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में नियमित अनुभाग अधिकारी (चयन सूची वर्ष 2006) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालय मामलों के परिणाम के अधीन होगी :

- (i) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में श्री सौरांशु सिन्हा बनाम भारत संघ द्वारा दायर ओ.ए.सं. 1083/2007, एम.ए.सं. 1171/2007 तथा 2011।
- (ii) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में श्री ए. के. नंदी एवं अन्य बनाम भारत संघ द्वारा दायर ओ.ए. सं. 2136/2010।
- (iii) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में श्री विकास त्रिपाठी व अन्य बनाम भारत संघ द्वारा दायर ओ.ए. सं. 2469/2010।
- (iv) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में श्री ए. प्रकाश व अन्य बनाम भारत संघ द्वारा दायर ओ.ए. सं. 1253/2009।
- (v) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में श्री प्रदीप कुमार मंडल बनाम भारत संघ द्वारा दायर ओ.ए. सं. 2584/2011 और एम.ए. सं. 1987/2011।

अशोक कुमार, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर 2011

सं. 9/1/2010-डीआरटी--केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति आधार पर पे-बैंड 3 में 15,600--39,100/- + 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में उनके नाम के सामने दी गई सारणी में दर्शाई गई अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, विभिन्न ऋण वसूली अधिकारियों में सहायक पंजीयक के पद पर नियुक्त करती है।

क्र. सं.	चयनित अधिकारी का नाम	पद	तैनाती का स्थान	प्रतिनियुक्ति की अवधि से (ता./म./वर्ष)	तक (ता./म./वर्ष)
श्री/श्रीमती					
1.	जी. पनीर सेलवम	सहायक पंजीयक	डीआरटी-I, चेन्नै	15.09.2011 (पूर्वाह्न)	14.09.2014
2.	के. सिरंजीवालू	सहायक पंजीयक	डीआरटी, मदुरै	16.11.2011 (पूर्वाह्न)	15.11.2014

राजीव शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 16 दिसम्बर 2011

सं. 7/1/2009-डीआरटी--बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 6 के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री महेश सिंह चौहान को दिनांक 02 दिसम्बर, 2011 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण, विशाखापट्टनम के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

राजीव शर्मा, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 2011

सं. ए-12026/1/2011-एडी-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के आशुलिपिक समूह "ग" (वैयक्तिक सहायक) (तदर्थ निजी सचिव के रूप में कार्यरत) श्रीमती कविता मनसुखानी को वर्ष 2008 की चयन सूची के लिए सीधी भर्ती कोट में दिनांक 01.12.2011 (पूर्वाह्न) से वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में नियमित आधार पर 9,300--34,800/- रुपए के पे-बैंड-2 + 4,800/- (ग्रेड पे) में आशुलिपिक समूह "क" और "ख" (आमेमित) (निजी सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

बिपलब कुमार राय, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसम्बर 2011

सं. ए-12026/9/2010-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री राजकुमार-II को पूर्णतः तदर्थ आधार पर प्रारंभ में दिनांक 15.11.2011 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 तक या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 9,300--34,800/- रुपए के पे बैंड-2 + 4,800/- रुपए (ग्रेड पे) में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री राजकुमार-II की यह तदर्थ पदोन्नति उन्हें नियमित नियुक्ति का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी और इस ग्रेड में अल्प अवधि के लिए उनके द्वारा की गई सेवा की गणना अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति कि लिए नहीं की जाएगी।

बिपलब कुमार राय, अवर सचिव

सं. ए-12026/4/2008-प्रशा.-I (भाग-II)--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित स्थायी सहायकों की पूर्णतः तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति की अवधि को 31 दिसम्बर, 2011 तक या नियमित पदधारकों के उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो और आगे बढ़ाते हैं :-

1. श्री डी. सी. केम
2. श्री शरद एन. हुलाले
3. श्रीमती उषा गिल
4. श्री नरेन्द्र प्रकाश
5. श्री प्रवीण चन्द्र शर्मा
6. श्रीमती विजय खरात
7. श्री सुनील कुमार
8. श्री टी. बेक
9. श्री के. जे. भट्ट

10. श्रीमती संगीता टोपो (10.11.2011 तक)

11. श्री प्रमोद कुमार वर्मा (10.11.2011 तक)

2. उपर्युक्त अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति उन्हें नियमित नियुक्ति का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करने करेगी और इस ग्रेड में अल्प अवधि के लिए उनके द्वारा की गई सेवा की गणना अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं की जाएगी।

बिपलब कुमार राय, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

सं. 5/70/2009-सीएस--राष्ट्रपति, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यरत श्री अजय कुमार चौहान, (आईआरएस : 84) की प्रतिनियुक्ति को तीसरे वर्ष अर्थात् 22 मार्च, 2012 के बाद एक वर्ष या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, तक विस्तार करते हैं।

जे. बी. कौशिश, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 दिसम्बर 2011

सं. ए-32014/4/2011-संवर्ग--राष्ट्रपति, श्री बिनोद कुमार (रैंक सं. 105, अनुक्रमांक 459, चयन सूची वर्ष-2008, जन्मतिथि : 15.01.1974; श्रेणी : सामान्य) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27 अक्टूबर, 2011 के का. जा. सं. 6/3/2011-सीएस-I(एस), द्वारा नामित किए जाने पर उन्हें 09 दिसम्बर, 2011 के अपराह्न से अनुभाग अधिकारी ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2008 के सफल उम्मीदवार नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति निम्नलिखित कोर्ट केस के अंतिम परिणाम के अध्याधीन होगी :-

- (i) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में, भारत संघ के विरुद्ध श्री सौराशु सिन्हा द्वारा दायर ओ.ए. सं. 1083/2007, एम.ए. सं. 1171/2007 एवं 2011 की एम.ए.।
- (ii) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में, भारत संघ के विरुद्ध श्री ए. के. नन्दी एवं अन्य द्वारा दायर ओ.ए. सं. 2136/2010
- (iii) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में, भारत संघ के विरुद्ध श्री विकास त्रिपाठी एवं अन्य द्वारा दायर ओ.ए. सं. 2469/2010
- (iv) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में, भारत संघ के विरुद्ध श्री ए. प्रकाश एवं अन्य द्वारा दायर ओ.ए. सं. 1253/2009
- (v) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में, भारत संघ व अन्य के विरुद्ध श्री प्रदीप कुमार मण्डल द्वारा दायर ओ.ए. सं. 2584/2011 और एम. ए. सं. 1987/2011

संजय शंकर, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

उर्वरक उद्योग समन्वय समिति

नई दिल्ली, दिनांक 7 दिसम्बर 2011

सं. 5/2/उ.उ.स.स./2011-प्रशासन--श्री अजय कुमार बंसल, सहायक लेखा अधिकारी, महालेखा नियंत्रक का कार्यालय प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय, विदेश मंत्रालय तथा विदेश भारतीय कार्य मंत्रालय के उर्वरक विभाग, उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (उउसस) कार्यालय में लेखाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर 9,300--34,800/- रु. वेतन बैंड + 5,400/- रु. ग्रेड वेतन पर आरंभिक तौर पर तीन वर्ष के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, दिनांक 01.12.2011 (पूर्वाह्न) से नियुक्त किए जाने हेतु राष्ट्रपति जी की मंजूरी प्रदान की जाती है।

राजीव कुमार, संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 दिसम्बर 2011

सं. ए-18011/142/2011-स्थापना--राष्ट्रपति, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय श्री बी. एन. नन्दा, भारतीय आर्थिक सेवा (1983) को 37,400--67,000/- रुपए (पीबी-4) + ग्रेड पे-10,000/- रुपए के वेतनमान में आर्थिक सलाहकार के रूप में दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 के पूर्वाह्न से, अगले आदेशों तक, नियुक्त करती हैं।

पी. पी. मुरलीधरन, उप सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2011

सं. ए-38013/05/2011-प्रशा.-I--स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की श्रीमती दयावती वर्मा, अनुभाग अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.10.2011 को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गई हैं।

आर. के. कालड़ा, उप निदेशक (प्रशा.)

दिनांक 27 दिसम्बर 2011

सं. ए-38012/05/2011-प्रशा.-I--स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के डॉ. राकेश कुमार श्रीवास्तव, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30.11.2011 को सरकारी सेवा से निवृत्त हुए।

आर. के. कालड़ा, उप निदेशक (प्रशा.)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर 2011

सं. 4-1/2011-प्रशा.--सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 (1) (क) के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के चुने गए विकल्प के आधार पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी श्री किरपाल सिंह दिनांक 03.11.2011 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

नवीन यादव, अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 नवम्बर 2011

सं. ए-19011/18/2011-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.10.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/2011-सी.एस.-II(ए) (पीटी) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में स्थायी निजी सचिव (पीएस) को तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के पीबी-3 : 15,600--39,100/- रु. + ग्रेड पे 6,600/- रु. के वेतनमान में दिनांक 22.11.2011 (पूर्वाह्न) से 31.03.2012 तक की अवधि हेतु या नियमित रूप से पद भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री शर्मा की प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और इससे उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक पद पर बने रहने या प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

वनिता सूद, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

सं. 3-7/2004-डीडी-IV--राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम के संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 50 और 51 के अनुसरण में, राष्ट्रपति राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम के निदेशक मण्डल में निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 10.11.2011 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो पदेन निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	संगठन	के स्थान पर
1.	श्री ए. एन. झा	संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, सा. न्या. एवं अधि. मं.	श्री पी. के. सिन्हा
2.	श्री पंकज जोशी	संयुक्त सचिव (डीडी), सा. न्या. एवं अधि. मं.	श्री अरविन्द प्रसाद
3.	श्री एम. पी. सिंह	अपर विकास आयुक्त और आर्थिक सलाहकार विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई)	श्री के. एस. लुङ्ग
4.	श्री उमेश चन्दर गौड़	जी. एम. सिडबी, फरीदाबाद ब्रांच	श्री आर. एन. यादव
5.	श्री अरुण कुमार गोयल	आरएच-एसएमई (उत्तर), आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली	श्री दीपक गुप्ता
6.	श्री जी. नारायण राव	सीएमडी, एलिम्को, कानपुर (यू.पी.)	श्री एस. के. मुखर्जी
7.	श्री हरदीप सिंह किंगरा	सीएमडी, एनएसएफडीसी, नई दिल्ली	श्री ए. सी. पाढ़ी

सी. पी. कत्याल, उप सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 दिसम्बर 2011

सं. पीएफ/3046/एनआईसी/2011-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्रीमती बी. बामा, कर्मचारी कोड : 3046 का वैज्ञानिक-सी के पद से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र-आंध्र प्रदेश राज्य एकक, हैदराबाद से दिनांक 30.09.2011 की पूर्वाह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, संयुक्त निदेशक (प्रशा.-I)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर 2011

सं. ईआरबी-I/2007/10/4--सुश्री पोम्पा बब्बर, वित्त आयुक्त, रेलें एवं रेल मंत्रालय में भारत सरकार की पदेन सचिव 30.11.2011 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-I/2007/10/4--रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30.11.2011 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं :--

(i) श्री एम. एन. लोथे, अपर मुख्य आर्थिक सलाहकार

(ii) श्री एस. सी. जैन, अनुभाग अधिकारी

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 22 दिसम्बर 2011

सं. ईआरबी-I/2011/3/10--श्री रमन सेन गुप्ता, हैड ड्राफ्ट्समैन, रेलवे बोर्ड (वेतनमान रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड पे रु. 4,600/-) को 09.12.2011 के पूर्वाह्न से वेतनमान रु. 9,300--34,800/- जमा ग्रेड पे रु. 4,800/- के वेतनमान में स्थायी आधार पर रेलवे बोर्ड के सहायक डिजाईन इंजीनियर (सिविल) के रूप में पदोन्नत किया जाता है।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर 2011

सं. ए-12026/1/2011-ई-I(बी)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.10.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/2011-सीएस-II(ए) (भाग) के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक

सेवा के अधिकारी श्री बृज भूषण शर्मा को 15,600--39,100/- रु. के पे बैंड-3 + 6,600/- रु. के ग्रेड पे में दिनांक 11.11.2011 (अपराह्न) से 31.03.2012 तक की अवधि के लिए अथवा यह पद नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. आर. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर 2011

सं. ए-12026/1/2011-ई-1(बी)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.10.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/2011-सीएस-II(ए) (भाग) के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अधिकारी श्रीमती अनीता एस. दहारा को 15,600--39,100/- रु. के पे बैंड-3 + 6,600/- रु. के ग्रेड पे में दिनांक 30.11.2011 (अपराह्न) से 31.03.2012 तक की अवधि के लिए अथवा यह पद नियमित आधार

पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 दिसम्बर 2011

सं. 8/2011-मि.सं.ए.-12025/1/2007-प्रशा.एक--राष्ट्रपति, श्री कुमार सौरभ को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवा के सहायक निदेशक ग्रेड एक/सहायक कार्यकारी अभियन्ता के ग्रेड में दिनांक 12 दिसम्बर, 2011 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

2. श्री कुमार सौरभ दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।

मधुकर सूद, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 7th December 2011

No. A-19012/02/2005-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Rajive Kumar, IAS (UP : 81), presently Joint Secretary as Additional Secretary, on in-situ basis, in the Cabinet Secretariat with effect from 25.11.2011 by upgrading the post of Joint Secretary held by him.

K. J. SIBICHAN, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 1st December 2011

No. A-22012/01/2011-Admn.-IV—Consequent upon qualifying the Combined SOs/Stenographers (Gr. 'B'/Gr. 'I') Limited Departmental Competitive Examination 2006, 2007, 2008 conducted by Union Public Service Commission, and subsequent nomination to Planning Commission vide Department of Personnel & Training Order No. 6/3/2011-CS.I(S) dated 27th October, 2011, the President is pleased to appoint Shri Dinesh Kochher, as Section Officer (CSS), Select List-2007 in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- in Planning Commission, with effect from 01.12.2011 (F.N).

P. C. BHARDWAJ, Under Secy.

New Delhi, the 25th November 2011

No. F.6(1972)/2006-Adm. I—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 7/4/2006-EO(MM-I) dated 15th July, 2011 and in continuation of Planning Commission's Notification of even number dated 23rd June, 2006, the central deputation tenure of Smt. Padma Iyer Kaul, IP&TA&FS (89), Director in the Economic Advisory Council is extended beyond 15-06-2011 i.e. upto 29.07.2011.

2. On completion of her tenure, Smt. Padma Iyer Kaul, Director, EAC is granted Earned Leave for a period of 9 days with effect from 01.08.2011 to 09.08.2011 (prefixing 30.07.2011 and 31.07.2011 being closed holidays). The services of Smt. Kaul are placed at the disposal of her parent cadre i.e. Department of Telecommunication after expiry of the leave.

3. This issues in supersession of Planning Commission's Notification of even number dated 29th July, 2011.

G. RAJEEV, Under Secy.

The 28th November 2011

No. F.6(2172)/2011-Admn. I—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. P-15/2011 issued from File No. 13016/1/2011-IES, dated 22nd November, 2011, Ms. Vinita Kumar, SAG officer of IES, has assumed charge as Senior Adviser in Planning Commission in HAG

scale of Rs. 67,000/- (annual increment @ 3%) Rs. 79,000/- with effect from the forenoon of 28th November, 2011.

G. RAJEEV, Under Secy.

The 29th November 2011

No. F.6(1656)/96-Admn. I (Vol.III)—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. P-15/2011 issued from File No. 13016/1/2011-IES, dated 22nd November, 2011, Dr. C. Chandramohan, IES, (1979), has assumed charge as Senior Adviser in Planning Commission in HAG scale of Rs. 67,000/- (annual increment @ 3%) 79,000/- with effect from the forenoon of 23rd November, 2011.

G. RAJEEV, Under Secy.

New Delhi-110001, the 20th December 2011

No. A-20012/39/74-Adm. III—On attaining the age of superannuation, Shri B. D. Kumar, Sr. PPS of CSSS cadre of Planning Commission retires from government service w.e.f. the afternoon of 31.12.2011.

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

No. A-20012/189/79-Adm. III—On attaining the age of superannuation, Shri Narinder Kumar, Private Secretary (ad hoc) of CSSS cadre of Planning Commission retires from government service w.e.f. the afternoon of 31.12.2011.

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 16th December 2011

No. A-32013/2/2009-Admn. I (L.D.)—On the basis of recommendation of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Shri K. R. Saji Kumar, Deputy Legislative Counsel (Grade-III of Indian Legal Service) to officiate as Additional Legislative Counsel (Grade-II of the ILS) in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/- in the Legislative Department, Ministry of Law & Justice with effect from the forenoon of 14th December, 2011 and until further orders.

2. Shri K. R. Saji Kumar will be on probation for a period of two years with effect from the date of his appointment to the post of Additional Legislative Counsel (Grade II of ILS) in the Department.

3. The appointment of Shri K. R. Saji Kumar to the post of Additional Legislative Counsel is subject to the outcome of the final decision of O.A. No. 3594/2011 filed by Shri N. R. Battu, Deputy Legislative Counsel in the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi.

M. R. BEERH, Director (Admn.)

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 13th December 2011

No. A-12034/1/2011-Admn. IV (LA)—The President is pleased to appoint Shri S. Balasubramanian, Personal Assistant of Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture as First Personal Assistant in the personal section of the Hon'ble Minister of Law & Justice (Shri Salman Khurshid) w.e.f. 01.12.2011 (F/N) in the Pay Band PB-2 Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/-. However, Shri S. Balasubramanian will be entitled for cadre pay plus Deputation (Duty) Allowance as per instructions contained in DoPT's OM No. 2/22/(B)/2008-Estt. (Pay-II) dated 3rd September, 2008.

2. The appointment of Shri S. Balasubramanian is at the pleasure of, and co-terminus with the tenure of Shri Salman Khurshid as Minister for Law & Justice.

ASHA SOTA, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 15th December 2011

No. A-32014/5/2010-Ad. I (A)—The President is pleased to appoint the following Principal Private Secretaries of CSSS cadre as Senior Principal Private Secretary on regular basis in the Ministry of Home Affairs Cadre with effect from the forenoon of 16th November, 2011, consequent upon inclusion of their names in the Select List of Senior Principal Private Secretary in terms of the DoPT's OM No. 2/1/2011-CS. II(A) dated 16.11.2011.

S. No.	Name of regular PPSs	Seniority No. as per DoPT's above referred OM	Select List Year of Sr. PPS
S/Shri/Smt.			
1.	Suresh Chander, Sr. PPS (ad-hoc)	1	2010 (Part)
2.	Kailash Chand, Sr. PPS (ad-hoc)	4	2010 (Part)
3.	D. D. Sadhwani, Sr. PPS (ad-hoc)	13	2010 (Part)
4.	Vinod Prakash, Sr. PPS (ad-hoc)	21	2010 (Part)
5.	Shashi A. Kumar, Sr. PPS (ad-hoc)	22	2010 (Part)
6.	Mahendra Rao, Sr. PPS (ad-hoc)	23	2010 (Part)
7.	Naresh Kumar, PPS	24	2010 (Part)

J. B. SHARMA, Under Secy.

New Delhi-110001, the 27th December 2011

No. I-14012/14/2011/IPS-IV—Consequent upon her selection for appointment to Indian Foreign Service on the basis of her qualifying the Civil Services Examination, 2010, the President is pleased to accept the technical resignation of Ms. Manusmruti, IPS Probationer of 2009 batch, belonging to AGMUT Cadre, who was appointed to the Indian Police Service on the basis of the Civil Services Examination, 2008, from the Indian Police Service with effect from 09.12.2011 (Afternoon).

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

New Delhi, the 28th December 2011

No. I-14011/23/2011/IPS. I (I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 22.12.2011, approved by the year-wise Select List of 2008-A and 2009 prepared by the Selection Committee in its meeting held on 03.10.2011, containing the names of the following State Police Service Officers of Kerala towards filling up 5 & 5 total 10 substantive vacancies during the year 2011 in the IPS of Kerala Cadre :—

Select List-2008-A

Sl. No.	Name	Date of Birth
S/Shri		
1.	K. B. Balachandran	30.11.1954
2.	S. Surendran	20.05.1961
3.	A. V. George	24.03.1962
4.	S. Sasikumar	30.05.1956
5.	T. K. Rajmohan	15.05.1954

Select List-2009

1.*	D. Madhu	28.05.1956
2.	P. H. Asharaf	17.11.1955
3.	V. C. Mohanan	30.11.1956
4.**	Shaik Anvaruddin Sahib	27.11.1955
5.	A. J. Thomaskutty	10.11.1955

*The name at S. No. 1 has been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

**The name at S. No. 4 has been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Govt.

K. NATARAJAN, Under Secy.

No. I-14011/23/2011/IPS. I (II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Kerala Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Kerala Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List-2008-A

Sl. No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
1.	K. B. Balachandran	30.11.1954
2.	S. Surendran	20.05.1961
3.	A. V. George	24.03.1962
4.	S. Sasikumar	30.05.1956
5.	T. K. Rajmohan	15.05.1954

Select List-2009

1.	P. H. Asharaf	17.11.1955
2.	V. C. Mohanan	30.11.1956
3.	A. J. Thomaskutty	10.11.1955

2. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

K. NATARAJAN, Under Secy.

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH
EASTERN REGION

New Delhi-110011, the 19th December 2011

No. 12/65/2011-Admn.—The President is pleased to appoint Sh. Shobhit Gupta, as Section Officer in the Ministry of Development of North Eastern Region with effect from 01.12.2011 (F.N.).

L. B. TUOLTE, Under Secy.

DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS &
PUBLIC GRIEVANCES

New Delhi-110001, the 16th December 2011

No. A-19011/02/2011-AR (Ad. I)—The President is pleased to appoint Shri Shashi Shekhar, IAS (TN : 81) as Joint Secretary, Department of Administrative Reforms & Public Grievances, Ministry of Personnel, Public Grievances

and Pensions with effect from the forenoon of 15th December, 2011 until further orders.

B. K. SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 28th November 2011

Sub : Corrigendum to Notification dated 31st October, 2011

No. 33/PB-III/2011—In the Notification No. 30/PB-I/2011 dated 31st October, 2011, for Principal Staff Officer (PSO), the date of Birth of Shri A. Parthasarathy at S. No. 5 may be corrected to read as 25.03.1952.

S. K. RAY, Administrative Officer (PB-I & III)

No. 32/PB-III/2011—The President is pleased to appoint the undermentioned officer(s) of the Principal Private Secretary grade of the Stenographers Cadre of IFS (B) to officiate in the Grade of Senior Principal Private Secretary (Sr. PPS) of the Stenographers Cadre of IFS (B) with effect from the date shown against their names in terms of Ministry's O.M. No. Q/CAD/584/11/2010 dated 25th October, 2011 :—

Sl. No.	Name	Date of Birth	Date of promotion
	Shri/Smt.		
1.	Birbal Anand	02.05.1960	24.05.2010
2.	Ashok Kumar Bhardwaj	06.08.1953	01.06.2010
3.	Prem Nath Dogra	26.01.1951	retired on 31.01.2011
4.	T. Mohan Chandran	25.05.1953	03.10.2011
5.	Manohar Kumar	21.08.1952	03.10.2011
6.	Mukesh Randev	05.10.1954	03.10.2011
7.	Dilip Raj	16.02.1952	03.10.2011
8.	Amar Jeet	05.04.1961	03.10.2011
9.	Jitu Munda	20.06.1951	retired on 30.06.2011
10.	Anil Kumar Gupta	03.10.1958	03.10.2011
11.	Chander Prakash	14.02.1955	21.10.2011

2. The above mentioned officers have assumed charge of the post of Senior Principal Private Secretary with effect from dates indicated against their names, excepting those mentioned at Sl. No. 3 & 9 who have retired from Government Services.

S. K. RAY, Admin. Officer (PB-I & III)

The 2nd December 2011

No. 35/PB-I/2011—On attaining the age of superannuation, Shri Sunil Kumar Ohri (DOB: 09.10.1951), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B) retired from Government Service in the afternoon of 31st October 2011.

S. K. RAY, Admin. Officer (PB-I & III)

No. 36/PB-I/2011—On attaining the age of superannuation, Shri Didar Singh (DOB: 04.10.1951), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B) retired from Government Service in the afternoon of 31st October 2011.

S. K. RAY, Admin. Officer (PB-I & III)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 16th September 2011

No. 96A (F. No. A.19011/17/2010-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri M. C. Joshi, IRS (IT : 74009), as Chairman, Central Board of Direct Taxes (CBDT) in the Department of Revenue, Ministry of Finance in the Pay Scale of Rs. 80,000/- (fixed) with the status of Special Secretary to the Govt. of India with effect from 15.09.2011 (FN) and until further orders or until his superannuation, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 16th November 2011

No. 112 (F. No. A.19011/21/2011-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri A. K. Basu, IRS (IT : 74005) (retired) as Income Tax Ombudsman at Bengaluru in the HAG + Pay Scale of Rs. 75,500—80,000/- subject to the terms and conditions contained in the Income Tax Ombudsman Guidelines, 2010 for a period of 2 years with effect from 11.11.2011 (FN) or till he attains the age of 63 years or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 24th November 2011

No. 120 (F. No. A.19011/24/2011-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri Kalyan Chaudhuri, IRS (IT : 75005) (Retd.), as Income Tax Ombudsman at Ahmedabad in the HAG + Pay Scale of Rs. 75,500—80,000/- subject to the terms and conditions contained in the Income Tax Ombudsman Guidelines, 2010 for a period of 2 years with

effect from 21.11.2011 (AN) or till he attains the age of 63 years or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 30th November 2011

No. 121 (F. No. A.19011/25/2011-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri Amitabh Rajan, an officer of the Indian Administrative Service (MH : 79), as Additional Secretary to the Government of India in the Department of Revenue, Ministry of Finance with effect from 29.11.2011 (FN) and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 2nd December 2011

No. 122 (F. No. A.38011/11/2011-Ad.I)—Shri Rajesh Dhingra, an officer of the Indian Revenue Service (C&CE : 75), posted as Member, CBEC in the Department of Revenue retired from Government Service on 30.11.2011 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 7th December 2011

No. 124 (F. No. A.19011/27/2011-Ad.I)—The President is pleased to appoint Dr. Joseph Abraham (IES : 1979) as Senior Adviser to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, in the HAG scale of Pay of Rs. 67,000/- (annual increment @ 3%)—79,000/-, with effect from 01.12.2011 (FN) and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 20th December 2011

No. A-12011/18/2005-Admn.II—In pursuance of Department of Expenditure (C&S) O.M. No. A.32014/1/2006-CAS (Vol.I) dated 15.12.2011, the President is pleased to appoint Shri Anil Yadav, Section Officer (Ad hoc), as regular Section Officer in the Pay Scale of Rs. 9,300—34,800/- + 4,800/- (Grade Pay) in PB-2 in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs on the basis of result of the Combined Limited Departmental Competitive Exam, 2006 with effect from the forenoon 05.12.2011.

2. The appointment of above mentioned officers to the grade of Section Officers of CSS shall be subject to the outcome of the following Court Cases :—

- (vi) OA No. 1083/2007, MA No. 1171/2007 & MA of 2011 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs. UOI in CAT, New Delhi.

- (vii) OA No. 2136/2010 filed by Shri A. K. Nandy & Ors. Vs. UoI in CAT, New Delhi;
- (viii) OA No. 2469/2010 filed by Shri Vikas Tripathi & Ors. Vs. UoI in CAT, New Delhi;
- (ix) OA No. 1253/2009 filed by Shri A. Prakash & Ors. Vs. UoI in CAT, New Delhi;
- (x) OA No. 2584/2011 and MA No. 1987/2011 filed by Shri Prodip Kumar Mondal Vs. UoI & Ors. in CAT, New Delhi.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 2nd December 2011

No. 9/1/2010-DRT—The Central Government is pleased to appoint the following Officers to the post of Assistant Registrar in various Debt Recovery Tribunals (DRTs) on deputation basis, in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- for a period mentioned against each or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name of the Officer selected	Post	Posted in	Period of deputation From To
	Shri/Smt.			
1.	G. Paneer Selvam	Assistant Registrar	DRT-I, Chennai	15.09.2011 14.09.2014 (F/N)
2.	K. Siranjeevalu	Assistant Registrar	DRT, Madurai	16.11.2011 15.11.2014 (A/N)

RAJIV SHARMA, Under Secy.

The 16th December 2011

No. 7/1/2009-DRT—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 4 read with Section 6 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government has appointed Shri Mahesh Singh Chauhan as Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal, Visakhapatnam for a period of five years with effect from 2nd December, 2011 (F.N.) or till he attains the age of 62 years, whichever is earlier.

RAJIV SHARMA, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 20th December 2011

No. A-12026/1/2011-Ad.I—The President is pleased to appoint Smt. Kavita Mansukhani, Steno Grade 'C' (PA) (officiating as ad hoc PS) in the CSSS cadre to the post of Steno Grade 'A&B' (merged) (PS) in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + 4,800/- (Grade Pay) on regular basis against DE Quota for the Select List Year 2008 w.e.f. 01.12.2011 (F/N).

BIPLAB KUMAR ROY, Under Secy.

The 21st December 2011

No. A-12026/9/2010-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri Rajkumar-II, permanent Assistant of CSS Cadre of Ministry of Finance, Department of Expenditure to the grade of Section Officer of the CSS in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,800/- (Grade Pay) on purely ad hoc basis w.e.f. 15.11.2011 initially upto 31st December, 2011 or till regular incumbents become available or till further orders, whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion of Shri Rajkumar-II will not bestow on him any claim for regular appointment and services rendered by him on short-term basis in the grade will not be counted for promotion in the next higher grade.

BIPLAB KUMAR ROY, Under Secy.

No. A-12026/4/2008-Admn.I(Vol.II)—The President is pleased to extend the appointment of the following permanent Assistants of CSS Cadre of Ministry of Finance, Department of Expenditure to the post of Section Officer on purely ad hoc basis upto 31st December, 2011 or till regular incumbents become available, whichever is earlier :—

1. Shri D. C. Kaim
2. Shri Sharad N. Hulale
3. Smt. Usha Gill
4. Shri Narender Prakash
5. Shri Praveen Chander Sharma
6. Smt. Vijay Kharat
7. Shri Sunil Kumar
8. Shri T. Beck
9. Shri K. J. Bhatt
10. Smt. Sangita Toppo (upto 10.11.11)
11. Shri Pramod Kumar Verma (upto 10.11.11)

2. The ad hoc promotion of the above officials will not bestow on them any claim for regular appointment and services rendered by them on short-term basis in the grade will not be counted for promotion in the next higher grade.

BIPLAB KUMAR ROY, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110001, the December 2011

No. 5/70/2009-CS—The President is pleased to extend the term of deputation of Shri Ajay Kumar Chauhan, (IRS:84) presently working as Director General, Competition Commission of India on deputation basis for third year i.e. one year beyond 22nd March, 2012 or till further orders, whichever is earlier.

J. B. KAUSHISH, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 22nd December 2011

No. A-32014/4/2011-Cadre—The President is pleased to appoint Shri Binod Kumar (Rank No. 105, Roll No. 459, Select List Year-2008, Date of Birth: 15.01.1974; Category: General), a successful candidate of Section Officers' Grade Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2008 with effect from the afternoon of December 09, 2011, on his nomination by DoP&T, vide O.M. No. 6/3/2011-CS.I(S), dated October 27, 2011.

2. The appointment shall be subject to the outcome of the following Court Cases :—

- (i) O.A. No. 1083/2007, MA No. 1171/2007 & MA of 2011 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs. UoI in CAT, New Delhi;
- (ii) OA No. 2136/2010 filed by Shri A. K. Nandy & Ors. Vs. UoI in CAT, New Delhi;
- (iii) OA No. 2469/2010 filed by Shri Vikas Tripathi & Ors. Vs. UoI in CAT, New Delhi;
- (iv) OA No. 1253/2009 filed by Shri A. Prakash & Ors. Vs. UoI in CAT, New Delhi; &
- (v) OA No. 2584/2011 and MA No. 1987/2011 filed by Shri Prodip Kumar Mondal Vs. UoI & Ors in CAT, New Delhi.

SANJOY SHANKAR, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(DEPTT. OF FERTILIZERS)

FERTILIZER INDUSTRY COORDINATION
COMMITTEE

New Delhi, the 7th December 2011

No. 5/2/FICC/2011-Admn.—The President is pleased to appoint Sh. Ajay Kumar Bansal, Assistant Accounts Officer of CGA, Office of the Principal Chief Controller of Accounts, Ministry of External Affairs & Ministry of Overseas Indian Affairs on deputation basis in the office of Fertilizer Industry Coordination Committee in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- in the Grade Pay of Rs. 5,400/- initially for a period of three years or until further orders, whichever is earlier, with effect from the forenoon of 01.12.2011.

RAJIVA KUMAR, Jt. Dir. (Admn.)

MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

New Delhi, the 16th December 2011

No. A-18011/142/2011-Estt.—The President is pleased to appoint Shri B. N. Nanda, IES (1983) as Economic Adviser in the Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises in the Scale of Pay of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) + Grade Pay Rs. 10,000/- with effect from the forenoon of 13th December, 2011 until further orders.

P. P. MURALIDHARAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
(DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES)

New Delhi, the 26th December 2011

No. A-38013/5/2011-Admn.-I—Smt. Dayawati Verma, Section Officer of the Directorate General of Health Services retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 31.10.2011.

R. K. KALRA, Dy. Dir. (Admn.)

The 27th December 2011

No. A-38012/05/2011-Admn.-I—Dr. Rakesh Kumar Srivastava, DGHS of the Directorate General of Health Services retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 30.11.2011.

R. K. KALRA, Dy. Dir. (Admn.)

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD
DEVELOPMENT

New Delhi, the 23rd November 2011

No. 4-1/2011-Admn.—Consequent upon his option to retire on voluntary basis under Rule 48(1)(a) of CCS (Pension) Rules, 1972, Shri Kirpal Singh, Section Officer in the Ministry of Women and Child Development stands retired from Government service with effect from 03.11.2011 (afternoon).

NAVEEN YADAV, Under Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 28th November 2011

No. A-19011/18/2011-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/1/2011-CS.II (A)(Pt.) dated 25.10.2011, President is pleased to appoint Shri Narendra Kumar Sharma, permanent Private Secretary (PS) of CSSS cadre as the Principal Private Secretary of CSSS on ad hoc basis in PB-3: Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from 22.11.2011 (FN) for the period upto 31.3.2012 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of Shri Sharma to the grade of PPS is purely on ad hoc basis and shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or claim seniority in the grade of PPS.

VANITA SOOD, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

New Delhi-110001, the 9th December 2011

No. 3-7/2004-DD-IV—In pursuance of Articles 50 and 51 of the Articles of Association of the National Handicapped Finance & Development Corporation (NHFDC), the President is pleased to appoint the following as ex-officio Directors on the Board of Directors of the National Handicapped Finance & Development Corporation with

effect from 10.11.2011 for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier :—

Sl.No.	Name	Organisation	Vice
1.	Sh. A. N. Jha	JS&FA, Ministry of SJ&E	Sh. P. K. Sinha
2.	Sh. Pankaj Joshi	JS(DD), Ministry of SJ&E	Sh. Arbind Prasad
3.	Sh. M. P. Singh	Additional Development Commissioner and EA, Office of the Development Commissioner (MSME)	Sh. K. S. Ludu
4.	Sh. Umesh Chander Gaur	G.M., SIDBI, Faridabad Branch	Sh. R. N. Yadav
5.	Sh. Arun Kumar Goyal	RH-SME (North), IDBI Bank Ltd., New Delhi	Sh. Deepak Gupta
6.	Sh. G. Narayan Rao	CMD, ALIMCO, Kanpur (U.P.)	Sh. S. K. Mukherjee
7.	Sh. Hardip Singh Kingra	CMD, NSFDC, New Delhi	Sh. A. C. Padhi

C. P. KATYAL, Dy. Secy.

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS &
INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)
NATIONAL INFORMATICS CENTRE**

New Delhi-110003, the 26th December 2011

No. PF/3046/NIC/2011-Adm-I—The President is pleased to accept the Voluntary Retirement of Smt. B. Bama, Emp. Code: 3046 from the post of Scientist-C, NIC-Andhra Pradesh State Unit, Hyderabad from the forenoon of 30.09.2011 and she stands relieved of her duties from the same day.

R. M. NAIR, Jt. Dir. (Adm.-I)

**MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

New Delhi, the 19th December 2011

No. ERB-I/2007/10/4—Ms. Pompa Babbar, Financial Commissioner, Railways and ex-officio Secretary to the Government of India in the Ministry of Railways retired from service with effect from the afternoon of 30.11.2010.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

No. ERB-I/2007/10/4—The following Officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30.11.2011 :—

1. Shri M. N. Lothe, Additional Chief Economic Adviser
2. Shri S. C. Jain, Section Officer.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

The 22nd December 2011

No. ERB-I/2011/3/10—Shri Raman Sen Gupta, Head Draftsman, Railway Board (Scale Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,600/-) has been promoted as Assistant Design Engineer (Civil), Railway Board in Scale Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay Rs. 4,800/- on regular basis with effect from 09.12.2011 (FN).

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 23rd November 2011

No. A-12026/1/2011-E.I(B)—In pursuance of DoP&T's OM. No. 3/1/2011-CS.II(A)(Pt.) dated 25.10.2011, the President is pleased to appoint Shri Brij Bhushan Sharma, CSSS Officer as Principal Private Secretary on ad hoc basis in the Ministry of Road Transport & Highways in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from 11.11.2011 (AN) for the period upto 31.03.2012 or till the post are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

D. R. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 15th December 2011

No. A-12026/1/2011-E.I(B)—In pursuance of DoP&T's OM. No. 3/1/2011-CS.II(A)(Pt.) dated 25.10.2011, the President is pleased to appoint Smt. Anita S. Dahara, CSSS Officer as Principal Private Secretary on ad hoc basis in the Ministry of Road Transport & Highways in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from 30.11.2011 (FN) for the period upto 31.03.2012 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

H. R. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 16th December 2011

No. 8/2011 (F. No. A-12025/1/2007)-Adm.I—The President is pleased to appoint Shri Kumar Saurabh in the grade of Assistant Director Grade-I/Assistant Executive Engineer of the Central Power Engineering (Group A) Service in the Central Electricity Authority with effect from 12th December, 2011 (Forenoon) until further orders.

2. Shri Kumar Saurabh will be on probation for a period of two years.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.